

तुरंत रिलीज के लिए

परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन इस गर्मी लाइव संगीत, थिएटर और कल्चर की पेशकश कर रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 जून, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इस गर्मी, गार्डन सक्वेयर (Garden Square) और द रोज ब्रैम्पटन (The Rose Brampton), दोनों में इस गर्मी का आनंद लेने के लिए सभी के लिए, लाइव संगीत, थिएटरिकल मनोरंजन और कल्चर की पेशकश करने के लिए उत्साहित है।

परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन (Performing Arts Brampton), निम्नलिखित शोज की मेजबानी कर रहा है:

टेलस ऑफ एन अर्बन इंडियन (Tales of an Urban Indian)

24 और 25 जून, दोपहर बाद 2 बजे और रात 8 बजे तक

टेलस ऑफ एन अर्बन इंडियन में, सिमोन डगलस (Simon Douglas) के अविश्वसनीय सफर पर हमारे साथ जुड़ें। डैरेल डेनिस (Darrell Dennis) के द्वारा लिखा गया, यह इनोवेटिव वन-मैन शो, हमें एक इंडीजीन्स व्यक्ति की कहानी सुनाता है, जो नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया (Northern British Columbia) के रिजर्व और सिटी ऑफ वैनकूवर (City of Vancouver), दोनों में पलकर बड़ा हुआ। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) की चलती बस पर सेट शो में, दर्शक सिमोन के जीवित रहने और उम्मीद की कहानी में खो जाएंगे। 40 किरदारों की भूमिका के साथ, दर्शक सिमोन की आंखों से दुनिया देखेंगे। 500 से अधिक परफॉर्मंसेज का जशन मनाते हुए, यह सेमी-ऑटोबायोग्राफिकल प्ले दर्शकों को अपनेपन, पहचान और स्वीकृति की खोज में ले जाता है।

ब्रैम्पटन्स ऑन शेक्सपियर शो – मच ऐडो अबाउट नथिंग (Brampton's Own Shakespeare Show - Much Ado About Nothing)

प्रत्येक वीरवार को चिंगूकूज़ी पार्क (Chinguacousy Park) में: 28 जुलाई, 4 और 11 अगस्त, शाम 7:30 बजे

प्रत्येक शुक्रवार को माउंट प्लेज़ेंट सक्वेयर (Mount Pleasant Square) में: 29 जुलाई, 5 और 12 अगस्त, शाम 7:30 बजे

प्रत्येक शनिवार को केन विल्लैन्स सक्वेयर (Ken Whillans Square) में: 30 जुलाई, 6 और 13 अगस्त, शाम 7:30 बजे

लुई द गॉट प्रोडक्शन्स (Louie the Goat Productions) और परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन के द्वारा पेश की जाने वाली, प्रशंसकों की पसंदीदा कॉमेडी का, हर उम्र के दर्शक आनंद लेंगे, जहां शानदार चीजें होती हैं। जब मेसिना (Messina) शहर हीरो (Hero) और क्लॉडियो (Claudio) की शादी की तैयारी कर रहा होता है, तो प्रिंस के आदमी और लियोनाटो (Leonato) का परिवार, लंबे समय के दुश्मनों बीटराइस (Beatrice) और बेनेडिक (Benedick) का प्यार परवान चढ़ाकर, कामदेव की भूमिका निभाने की कोशिश करता है। इस दौरान, प्रिंस का भाई यह सबकुछ बर्बाद करने का प्रयास करता है। ब्रैम्पटन की तीन आउटडोर जगहों पर परफॉर्म करते हुए और लोकल एक्टर्स की कास्ट को पेश करते हुए, यह प्रोडक्शन ब्रैम्पटन के मोजैक को दर्शाता है। कुर्सी या कंबल लें और इस क्लासिक, परिवार-अनुकूलित कॉमेडी में हंसें और रोएं।

8वीं वार्षिक ईस्ट कोस्ट किचन पार्टी (8th Annual East Coast Kitchen Party)

9 जुलाई, दोपहर बाद 2 बजे से रात 8 बजे तक

सभी मैरीटाइमर्स (Maritimers) और मेनलैंडर्स (Mainlanders) – और उन सभी, जो इस बारे में उत्सुक हैं – को ईस्ट कोस्ट किचन पार्टी में ईस्ट कोस्ट (East Coast) के कल्चर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, इसे टोरोंटो पियर्सन (Toronto Pearson), टी.डी. (TD), नो फ्रिल्स (No Frills) और टिम होर्टन्स (Tim Hortons) के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।

ओल्ड मैन फ्लैनिंगनज् घोस्ट (Old Man Flannigan's Ghost), DnA और द राउडीमैन (The Rowdymen) के द्वारा परफॉर्मेंस के साथ, मेजबान रेबेका पेरी (Rebecca Perry) के साथ जुड़ें।

स्टॉप 'एन स्टैंपीड (Stomp 'N Stampede)

13 अगस्त, शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक

अपनी चरवाहा टोपी और बूट लें और हो सके तो डांसिंग पार्टनर भी! इस गर्मी, स्टॉप 'एन स्टैंपीड, कंट्री की सभी चीजों का जश्न मनाने के लिए गार्डन सक्वेयर में वापस आ गया है! डी.जे. जॉनी रिवेक्स (Johnny Rivex) स्पिनिंग लाइव का आनंद लें और डबल ट्रबल (Double Trouble) लाइन डांसर्स से लाइन डांसिंग लेसन न छोड़ें। परफॉर्मर्स का पूरा लाइन अप जल्द आ रहा है!

स्टारलाइट सैटर्डे मूवीज (Starlight Saturday Movies)

किसी दोस्त को साथ लें, तारीख तय करें, कंबल या कुर्सी लें और गार्डन सक्वेयर में, 2 और 16 जुलाई को रात 9 बजे, स्टारलाइट सैटर्डे मूवीज (Starlight Saturday Movies) में शामिल हों!

2 जुलाई – नो टाइम टू डाई (No Time to Die)

16 जुलाई – द बैटमैन (The Batman)

मार्किट सक्वेयर पार्किंग गैराज (Market Square Parking Garage)

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, मार्किट सक्वेयर पार्किंग गैराज में मेंटेनेंस मुरम्मत पूरी की जाएगी और इसके परिणामस्वरूप, इसे 27 जून से 22 जुलाई, 2022 तक अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा।

पार्किंग लगातार निम्नलिखित म्युनिसिपल पार्किंग लॉट्स और गैराजों में आगंतुकों (विजिटर्स) और कारोबारियों के लिए, डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) में उपलब्ध होगी:

- जॉन स्ट्रीट पार्किंग गैराज, 16 जॉन स्ट्रीट (John Street Parking Garage, 16 John Street)

- सिटी हॉल पार्किंग गैराज, 2 वेलिंग्टन स्ट्रीट वेस्ट (City Hall Parking Garage, 2 Wellington Street West)
- वेस्ट टावर पार्किंग गैराज, 41 जॉर्ज स्ट्रीट (West Tower Parking Garage, 41 George Street)
- नेल्सन सक्वेयर पार्किंग गैराज, 9 डिपलॉक लेन (Nelson Square Parking Garage, 9 Diplock Lane)
- जॉर्ज स्ट्रीट नॉर्थ सरफेस पार्किंग लॉट, 20 जॉर्ज स्ट्रीट नॉर्थ (George Street North Surface Parking Lot, 20 George Street North)

हवाले

“परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन में इस गर्मी में नियोजित लाइव संगीत, थिएटर और सांस्कृतिक अनुभवों का एक उत्कृष्ट लाइनअप है! यदि आप शेक्सपियर संबंधी कुछ देखना चाहते हैं, तो ब्रैम्पटन ट्रांज़िट बस पर किसी शो का आनंद लें या साथी ब्रैम्पटनवासियों के साथ पार्टी में शामिल हों, यहां हर किसी के आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और हमारे बेजोड़ सांस्कृतिक अनुभव, हमारे जोशीले शहर में बहुत योगदान देते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन ने निवासियों और आगंतुकों के आनंद लेने के लिए, विविध शो और कार्यक्रमों को इकट्ठा किया है। मैं हर किसी को सलाह देती हूँ कि अपने कैलेंडरों में निशान लगाएं और पूरी गर्मी हमारे साथ जुड़ें!”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जुलाई त्यौहारों का महीना है, विशेषकर ब्रैम्पटन में! परफॉर्मिंग आर्ट्स, आपको ईस्ट कोस्ट किचन पार्टी में न्यूफाउंडलैंड फन में शामिल होने और स्टॉप एन' स्टैंपीड में आपके वेस्टर्न मनोरंजन के लिए आमंत्रित करता है। ये दोनों न चूकने वाले कार्यक्रम हैं, जो गार्डन सक्वेयर में हर गर्मी में होते हैं। यदि आपको थोड़े रोमांस के साथ हास्य पसंद है, तो शेक्सपियर के *मच ऐंडो अबाउट नथिंग* के लिए, ब्रैम्पटन के तीन पार्कों में से एक में जाएं, जिसे ब्रैम्पटन के एक्टर्स के जोशीले रूफ के द्वारा पेश किया जा रहा है। इसके अलावा काराब्रैम को न भूलें! ब्रैम्पटन, यह जुलाई है – आएं जशन मनाएं!”

- स्टीवन शिपर (Steven Schipper), एग्जीक्यूटिव आर्टिस्टिक डायरेक्टर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।



Media Release

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रॅम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca